



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-10.08.2022

थाना सारनाथ पुलिस टीम ने बाइक चोरी की विभिन्न घटनाओं का किया सफल अनावरण, 02 नफर बाल अपचारी समेत कुल 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की कुल 04 अदद मोटरसाइकिलें बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 241/2022 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 306/2022 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 318/22 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 319/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. प्रिंस विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा निवासी ग्राम रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी 2. बाबी भारद्वाज पुत्र गोपाल भारद्वाज निवासी सा0- 20/205 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी तथा 02 नफर बाल अपचारी को बलुआ रोड से आज दिनांक 10.08.2022 को समय 12:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण की निशांदाही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की कुल 04 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सारनाथ में अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 10/08/22 जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि थाना सारनाथ क्षेत्र में हो रही मोटर साइकिल चोरी से सम्बन्धित चोर एक मोटर साइकिल को ले कर बलुआ रोड की तरफ से शहर में जाने वाले हैं। इस सूचना पर मुखबिर के साथ थाना सारनाथ पुलिस टीम बलुआ रोड पर प्राइमरी स्कूल लेदुपुर के सड़क के किनारे आड़ लेकर उक्त चोरो का इन्तजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बलुआ रोड की तरफ से एक मोटर साइकिल की लाइट आते हुए दिखायी दी कि मुखबिर के इशारे पर उक्त मोटर साइकिल को टार्च की रोशनी दे कर रुकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल चालक द्वारा गाड़ी मोड़ कर पुनः बलुआ के तरफ भागने का प्रयास किया जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे और लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़े जिन्हे पुलिस वालो द्वारा मौके पर घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो मोटर साइकिल चला रहे पहले ब्यक्ति ने अपना नाम प्रिंस विश्वकर्मा S/O राजू विश्वकर्मा R/O ग्राम रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ जनपद वाराणसी बताया और साथ बैठे लड़को ने अपना नाम पता बताते हुए उम्र करीब 15 वर्ष बताया। तीनों लड़को से गाड़ी मोड़ कर भागने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि यह चोरी की

मोटर साइकिल है। जिसे हम चार लोगो ने मिल कर पोस्टआफिस सारनाथ के पास से दिनांक 03.08.22 को चुराया था जिसे बेचने के लिये हम लोग शहर जा रहे थे। पकड़े गये तीनों लड़को से थाना क्षेत्र में हुई अन्य मोटर साइकिल की चोरियो के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछ ताछ की गयी तो बताये कि विगत दो माह में हम चार लोगो ने मिलकर सारनाथ क्षेत्र से कुल चार मोटर साइकिल चोरी किये हैं जिसमे आज एक मोटर साइकिल को ग्रहक मिलने पर बेचने के लिये शहर जा रहे थे। अन्य मोटर साइकिलो के बारे मे पूछने पर बताये कि अन्य तीन मोटर साइकिल हम लोग कपिल धारा धर्मशाला के पीछे छिपा कर ढक कर बेचने के लिये रखे है। तथा वहा पर बारी बारी से उसकी रखवाली करते है। इस समय उक्त मोटर साइकिल की रखवाली बाबी भारद्वाज कर रहा है। तत्पश्चात पकड़े गये लड़के व बरामद मोटर साइकिल को साथ ले कर कपिल धारा धर्मशाला के पीछे पहुँचा गया तो देखा गया कि 01 स्थान पर तीन अदद मोटर साइकिल ढक कर रखी हुई है। तथा एक व्यक्ति वही पर बैठा हुआ है। जो हम पुलिस बालो के देख कर भागने का प्रयास किया परन्तु मौके पर ही पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम बाबी भारद्वाज S/O गोपाल भरद्वाज निवासी सा0 20/205 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रिंस विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा निवासी ग्राम रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 19 वर्ष
2. बाबी भारद्वाज पुत्र गोपाल भारद्वाज निवासी सा0- 20/205 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 23 वर्ष।

तथा 02 नफर बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. मु0अ0स0 241/22 धारा 379 IPC से सम्बन्धित मो0सा0 संख्या UP 54 N 1265,
2. मु0अ0स0 306/22 धारा 379 IPC से सम्बन्धित मो0सा0 संख्या UP 65 BQ 5116,
3. मु0अ0स0 318/22 धारा 379 IPC से सम्बन्धित मो0सा0 संख्या UP 65 AZ 3619,
4. मु0अ0स0 319/22 धारा 379 IPC से सम्बन्धित मो0सा0 संख्या UP 65 AA 6614

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह थाना प्रभारी कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 अखिलेश वर्मा चौकी प्रभारी आशापुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 महेन्द्र यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 रंजीत द्विवेदी व थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
5. उ0नि0 दिगम्बर उपाध्याय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
6. हे0का0 देवाशीष सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 संतोष यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 मनोज सरोज थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
9. हे0का0 अरशद खाँ थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

